Indian Overseas Bank G2 Asadika

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600002 NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 23th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, 07" July, 2023 at 11:00 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the following businesses:

1.To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as of 31 March 2023, the Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Repor of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and

SPECIAL BUSINESS

To seek shareholders' approval for the appointment of Shri. Ajay Kumar Srivastava as Managing Director & CEO of the bank.

3. To seek shareholders' approval for the appointment of Shri, Sanjay Vinayak Mudaliar, Executive Director of the bank.

4. To raise paid up equity capital of Rs.1000 Crore through various options available (QIP/FPO/Rights Issues/ESPS etc.)

THIS NOTICE IS BEING PUBLISHED UNDER THE PROVISIONS OF REGULATION 56 OF INDIAN OVERSEAS BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2003 Amended up to 2008).

MCA vide its circulars has permitted companies to hold their AGM through VC/OAVM for period up to September 30, 2023 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the 23° Annual General Meeting is being held through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). Hence, shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The detailed procedure for participating in the meeting is stated in the notice of the Annual General Meeting. The Central office of the Bank at No. 763, Anna Salai, Chennai - 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

In compliance with the circulars issued by MCA and SEBI in that regard, electronic copies of the Notice of the 23" AGM and the Annual Report 2022-23 have been sent by email to all shareholders of the Bank whose email IDs are registered with the Depository/RTA/Bank. A Copy of the notice is also available on the website of the Bank viz. www.iob.in,on the website of the stock exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of the e-voting agency i.e.

https://www.evotingindia.com/ Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email addresses are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their Depository Participants.

Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their emai addresses and mobile number by clicking the link https://investors.cameoindia.com (the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Cameo Corporate Services imited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai - 600 002 Alternatively, the shareholders may send email to register their email address and mobile number by providing the required documents to agm@cameoindia.com.

In terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has appointed Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)to facilitate Remote e-voting and e-voting at the AGM to the shareholders for the agenda to be transacted in the 23" Annual General Meeting Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date viz. 30" June, 2023 may cast their vote electronically.

The details and the manner of casting votes by shareholders holding shares in demai mode, physical mode and for those who have not registered their e-mail are available in the Notice of the 23" Annual General Meeting

The Remote e-voting period commences on Tuesday, 04th July, 2023 at 9.00 a.m (IST) and ends on Thursday, 6" July, 2023 at 5.00 p.m.(IST) and Remote e-voting shall be disabled thereafter by CDSL. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The shareholders who have not voted through remote e-voting and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through the e voting system during the Meeting. Kindly note that once the vote is cast electronically, it cannot be modified, or vote

cannot be exercised in e-voting at the AGM. However, the shareholder can attend the 10. Any person, who acquires shares of the company and becomes member of the

company after dispatch of the notice of Annual General Meeting and holding share as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at investor@cameoindia.com/agm@cameoindia.com. The meeting being held over VC or OAVM where physical attendance of member

has been dispensed with, a member entitled to attend and vote at the meeting is no eligible to appoint proxies to attend the meeting instead of him/her. However, Body Corporates can send their Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc.to the Scrutinizer by email through their registered email address to rsaevoting@gmail.com with copy marked to RTA a investor@cameoindia.com /agm@cameoindia.com and to the Bank at investor@iobnet.co.in not less than four days before the date of the meeting, i.e., or or before 4.00 p.m. (IST) on July 3, 2023. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and

e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com at 1800 22 55 33.

The consolidated results of Remote e-voting and e-voting at the AGM along with the report of the scrutinizer shall be placed on the Bank's website: www.iob.in and informed to Stock Exchanges as well as CDSL within the prescribed time limit after Members who require technical assistance to access and participate in the meeting

through VC or grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Senior Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25° Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an emai to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33 By Order of the Board of Directors

For Indian Overseas Bank (Ajay Kumar Srivastava)

Managing Director & CEO

Date: June 14, 2023

offer dated April 19, 2023

Place: Ahmedabad

Date: June 15, 2023

financialex

Place: Chennai

BINANI INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L24117WB1962PLC025584)
Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town, Rajarhat, Main Road,
P.O. Hatiara, West Bengal 700157. Tel: 8100326795 Fax: 033 – 40088802;
Corporate Office: Mercantile Chambers 12, J.N. Heredia Marg, Ballard Estate
Mumbai, Maharashtra 400001 Tel:022-41263000 Fax: 022-22640044
Website: www.binaniindustries.com; Email – mumbai@binani.net. Binani

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Members of Binani Industries Limited ('the Company') for seeking consent of Members of the Company for transacting the following special business set out herein, proposed to be passed through postal ballot including electronic e-voting pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') made thereunder and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for time being in force) and General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars").

In compliance with the MCA circulars, the notice of Postal Ballot together with the Explanatory Statement has been sent on June 15, 2023 only through electronic mode by e-mail to all those members, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owner as received from Registrar and Share Transfer Agent as on Friday, June 09, 2023 ("Cutoff Date") and whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent. The Members whose email address is not registered with the Company may also cast their vote by following the e-voting or through postal ballot process given in the Notice of the Postal Ballot.

The notice of Postal Ballot along with the instructions for e-voting is available on the website of the Company www.binaniindustries.com, BSE Limited (www.bseindia.com) The National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of Link InTime India Private Limited at

As per the Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and Regulation 44 of SEBI (LODR), Regulations, 2015 the Company has engaged the services of Link InTime India Private Limited for providing e-voting facility to all its members to cast their votes electronically. Members are requested to note that e-voting period shall commence from 10:00 A.M. (IST) on Monday, June 19, 2023 and shall ends on 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, July 18, 2023. The e-voting module shall be disabled by Link InTime India Private Limited for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change subsequently or cast the vote again. The resolution if approved, shall be deemed on the last date of e-voting i.e Tuesday, July 18, 2023, subject to the requisite numbers of votes in favour of The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mohammed Aabid

(FCS No.6579 and COP No.6625), Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot including through remote e-voting process in a fair and transparent manner. The results of the Postal Ballot will be announced on or before Thursday July 20, 2023. The said results will be available on the website of the Company www.binaniindustries.com, on BSE Limited (www.bseindia.com), on National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of Link InTime India Private Limited instavote.linkintime.co.in.

If you have any queries or issues regarding e-voting from Link InTime E-voting System, you can refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and Instavote e-voting manual for Members available at http://instavote.linkintime.co.in under help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on Tel: +91 2249186000

Date: June 15, 2023 Place: Mumbai

Ashish Turakhia CFO & Company Secretary

By Order of the Board of Directors For Binani Industries Limited

Date: June 15, 2023

Place: New Delhi

PNB Finance and Industries Limited

CIN No.:-L65929DL1947PLC001240; Website: www.pnbfinanceandindustries.com Regd. Office: - 1" Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg. New Delhi-110002 Telephone:- +91-7303495375; E - mail : pnbfinanceindustries@gmail.com

NOTICE OF THE 128™ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

The 128th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be convened on Wednesday July12, 2023 at 10:30 A.M. IST through Video Conference ("VC") facility without the physica presence of the members at a common venue, to transact the ordinary and specia businesses, as set out in the notice of the 128th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular 10/2022 dated December 28,2022 in continuation of General Circular no.02/2022, dated May 05,2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular no SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"). In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the requirement of sending physical copy of the

notice of AGM and Annual Report to the Members has been dispensed, therefore the Company is sending notice of its 128th AGM and Annual Report 2022-23 to the Members at their registered email id address, the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.pnbfinanceandindustries.com and on the website of NSDI https://www.evoting.nsdl.com.and those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, are required to register their email addresses with Skyline Financial Services Private Limited (Registrar and Transfer Agent) by sending a request letter specifying name, folio number, number of shares, certificate number etc.at email ID parveen@skylinerta.com on or before July 05, 2023.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-of date of July 05, 2023 may cast their vote electronically on the ordinary and special businesses. as set out in the Notice of the 128th AGM through electronic voting system ("remote e-voting" of National Securities Depository Limited ("NSDL"). The detailed instructions on remote evoting and joining AGM are given in the notice of AGM. All the members are informed that:

(i) The ordinary and special business, as set out in the Notice of the 128th AGM, will be transacted through voting by electronic means;

Date and time of commencement of remote e-voting: July 08, 2023 (9:00 A.M.);

Date and time of end of remote e-voting: July 11, 2023 (5.00 P.M.); (iv) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or

through e-voting system during the 128th AGM is July 05, 2023; Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the

obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or pnbfinanceindustries@gmail.com. (vi) Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in

128th AGM by email and holding shares as on the cut-off date July 05, 2023, may

the AGM through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through

the e-voting system during AGM; c) the members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Registe of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote evoting, participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM (vii) Those members holding shares in physical form, whose email addresses are no registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address self-attested scanned copy of the PAN card; and self-attested scanned copy of any

document (such as Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members registered with the Company, be email to pnbfinanceindustries@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant. (viii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.co.in or Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,

connected with the voting by electronic means. 4. The Register of Members and Share Transfers Books of the Company will remain closed from July 06, 2023 to July 12, 2023 (both days inclusive).

Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or call on toll free

no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 who will also address the grievances

For PNB Finance and Industries Limited

NIT No. 07/EE(T)/ ACE(M)-7/ 2023-24)/

Press Notice Tender

Amount

tender (Rs.

"STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

38,26,838/- 76,600/- 500/-

Director & Company Secretary Place: Delhi **DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI**

Shweta Saxeria

OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (M)-7 THROUGH EXECUTIVE ENGINEER (TENDERING) M-7 H-BLOCK UDYOG NAGAR INDL. AREA PEERA GARHI CHOWK DELHI-110041

14/06/2023/

Date: June 15, 2023

Tender Dt. of release of Last dt./ time of receipt Fee's tender procurement of tender through E-procurement solution solution/I.D. No.

27.06.2023

at 3.00 P.M.

Sd/- (SATISH KUMAR GUPTA)


EXECUTIVE ENGINEER (T)

contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies,

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (T)M6 C/o ACE(M)6 OHT ASHOK VIHAR, NEW DELHI-110052

PRESS NIT No. 16 (2023-24)(REINVITED)



30.06.2023

upto 3.00 PM

(S. N. Prasad)

Date of release **Estimated** Name of Work of tender in **E-procurement** tender through solution Tender ID e-procurement 1. Desilting of 900 mm dia main peripherial Sewer line by super sucker from Mahindra 30.06.2023 Park Chowk to petrol pump Lok vihar in AC-16, Trinagar under AEE(M 16) 2023 DJB 242909 1 upto 3.00 PM

2. Desilting of 450 & 600 mm dia pheripheral Sewer line from Shiv Shankar chowk to Satyawati college, Satyawati college to Harihar apartment, Sagar ratna to C-2 30.06.2023 block phase 2 Ashok vihar, Sawan park main road and J Block Phase 1 Murga 40,50,821/ 2023 DJB 242909_2 Market to Union Bank Wazirpur Village by Super Sucker machine in Wazirpur constituency AC-17 under EE (M) 17 Further details in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in.

ISSUED BY P.R.O. (WATER) Advt. No. J.S.V. 65 (2023-24) "STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene" Executive Engineer (T) M-6

(This is not a Letter of Offer Announcement. This is a Corrigendum Advertisement)

EARUM PHARMACEUTICALS LIMITED

Corporate Identification Number: L24230GJ2012PLC071299

Registered Office: A-1106, Empire Business Hub, Near AUDA Water Tank, Science City Road, Sola Ahmedabad - 380 060 Telephone: + 079-48402525; Email id: cs@earumpharma.com Website: www.earumpharma.com; Contact Person: Mrs. Madhuri Mistry, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS: MR. BHUMISHTH NARENDRABHAI PATEL AND MRS. PAYAL BHUMISHTH PATEL

THE ISSUE

ISSUE OF 24.67.16.400 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs. 2/- EACH ("EQUITY SHARES") OF EARUN PHARMACEUTICALS LIMITED ("EARUM" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 2/- PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO RS. 49,34,32,800/- ON RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 10TH APRIL 2023 (THE

The Rights Issue was opened on 2nd May 2023 and closed on 31st May 2023 in the said issue the issue got subscribed to the

extent of 75.87% however in the Letter of Offer we have informed that under regulation 86(2) minimum subscription was required. In continuation to the Corrigendum Dated 2nd June, 2023 and published on 3rd June 2023 in the newspapers in which the pre issue advertisement was published Issuer Company found that minimum subscription as per Regulation 86 of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended from time to time ("SEBI ICDR"), was not applicable, and Issuer Company had issued Corrigendum Dated 2nd June, 2023 and published on 3rd June 2023 in the newspaper in which the pre issue advertisement was published. The Corrigendum published on 3rd June 2023, stated that there is misprint on page no 40 under the heading of Minimum Subscription in letter of offer dated April 19, 2023, the misprinting is in regard to the applicability of Minimum Subscription, which states that the requirement of minimum subscription in the Issue shall be applicable. Further, we wish to state that same is not applicable as we are satisfying both the conditions a. if object of the issue involves financing other than financing of capital expenditure for a project and b. our Promoter Mr. Bhumishth Patel, vide letter dated 24th January 2023 has given intend to fully subscribe to their portion of rights entitlement not renounce their rights except to the extent of renunciation within the promoter group. Accordingly, in terms of Regulation 86(2) of the SEBI ICDR Regulations, is not applicable to the Issue".

Post closure of the Rights Issue, it was noted that one of the promoters had not subscribed to their right entitlement part. Under Regulation 3 of SEBLICDR, the SEBLICDR Regulation is not applicable to issue below ₹50 Crores (Rupees Fifty Crores only) but in larger interest of our shareholders and to maintain higher standard of transparency. In view of the above update we are giving an option to the shareholders to withdraw the application to the extension period of 2 days i.e. from 16th June 2023; Friday to 17th June 2023; Saturday both days inclusive till 5:00 p.m. The Shareholders who wish to withdraw their respective applications, may do so by submitting a request for the same to the concerned Designated Intermediary or applying to the Registrar of Issue at rightsissue@bigshareonline.com or the Company at cs@earumpharma.com, who shall assist in such withdrawal of Bid cum Application Form. Investors should note the revised indicative timetable in respect of the Issue is set out below:

Event	Indicative Date	
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange	On or before Monday; June 19, 2023	
Initiation of refunds/ unblocking of funds from ASBA Account	On or before Tuesday; June 20, 2023	
Credit of the Equity Shares to Allottees	On or before Wednesday; June 21, 2023	
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges	On or before Monday; June 26, 2023	

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER. THE APPLICATION FORMS. THE ABRIDGED LETTER OF OFFER AND GENERAL INFORMATION DOCUMENT SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM FOR EARUM PHARMACEUTICALS LIMITED

Thereafter based on the remaining subscription received, the issuer company will proceed with allotment of rights.

On behalf of the Board of Directors Madhuri Mistry Company Secretary

THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED

IHCL

Corporate Identity Number: L74999MH1902PLC000183 Regd. Off: Mandlik House, Mandlik Road, Mumbai 400 001 Tel. No.:91 22 6137 1637

Website: www.ihcltata.com | E-mail: investorrelations@ihcltata.com

NOTICE

Transfer of Equity Shares of The Indian Hotels Company Limited (Company) to the Investor Education and

Protection Fund (IEPF)

The Notice is being published pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) read with the Investor

De-silting of 600/550/500/400/300/250mm dia deep sewer line by Supel

Sucker Machine and shallow sewer by bucket system and removal of

pardies and repair of buried sewer manholes in Shiv Enclave Group of

U/A colony in Mundka constituency under AEE (M)-08.

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 64 (2023-24)

Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), each as amended. The Act and the Rules, inter-alia contains provisions for transfer of unclaimed dividend to IEPF and transfer of shares(s), both held in physical form as well as in electronic form, in respect of which dividend(s) has not been paid or claimed by the shareholders for seven (7) consecutive years or more, to IEPF Authority.

In compliance with the Rules, the Company has sent individual communication in physical mode to the concerned shareholders at their registered postal addresses, for them to claim such dividend(s). The communication is addressed to those shareholders, whose dividend(s) remain unclaimed and whose shares(s) are liable to be transferred in favour of IEPF Authority on Friday, September 29, 2023 as per the aforesaid Rules. The shareholders are advised to claim such dividend(s) by Friday, September 8, 2023.

As per SEBI Circulars dated November 3, 2021, December 14, 2021 and March 16, 2023, outstanding dividend payments will be credited to the Bank Account of shareholders holding shares in physical form ONLY if the folio is KYC compliant and Nomination details are registered. Failure to update the PAN, KYC and Nomination details by September 30, 2023, shall result in freezing of such physical folios/holdings."

The Company has made available, the complete details of the concerned shareholders whose shares are liable for transfer to IEPF on its website at www.ihcltata.com. Shareholders are requested to refer to https://www.ihcltata.com/investors/ to verify the details of their unclaimed dividend(s) and their shares(s) liable to be transferred to the IEPF.

Shareholders are requested to note that in case the dividend(s) are not claimed by September 8, 2023, those equity shares(s) in respect of which the dividends remain unclaimed for 7 consecutive years, shall be transferred to IEPF, without any further notice to the shareholders in the following manner:

In case Equity Shares are held:

- In physical form: New Share Certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF Authority in completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in the name of shareholder will be deemed cancelled and non-negotiable.
- account of IEPF Authority established by Central Government. The concerned shareholders are further requested to note that all further benefits arising on such shares would also be issued/

transferred in favour of the IEPF Authority.

The shareholders may note that both, the unclaimed dividend(s) and the equity share(s) already transferred to IEPF can be claimed by submitting an online application electronically (web form IEPF-5) available on the website of Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in and sending the physical copy of the same, duly signed, to the attention of Nodal Officer/Deputy Nodal Officer, The Indian Hotels Company Limited at the Corporate office address (6th Floor, Express Towers, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021), along with the e-form submission acknowledgement/challan and requisite documents enumerated in web form IEPF-5. Please note that the link to the webform is also available on the website of the Company at www.ihcltata.com.

The shareholders may further note that the details of unclaimed dividend and shares of the concerned shareholders(s) uploaded by the Company on its website https://www.ihcltata.com/investors/ shall be treated as adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares in favour of IEPF Authority pursuant to the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and equity shares transferred to the IEPF.

For any queries on the above matter. Shareholders are requested to contact either of the following:

For any queries on the above matter, Shareholders are reque	and Executive Vice President Corporate any Secretary (Group) C-101, 247 Park, Lbs Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083			
Company	Registrars and Transfer Agents (RTA)			
The Indian Hotels Company Limited	Link Intime India Pvt.Ltd.			
Nodal Officer and Executive Vice President Corporate Affairs & Company Secretary (Group)				
6th Floor, Express Towers, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400 021 Email.: investorrelations@tajhotels.com	Email.: rnt.helpdesk@linkintime.co.in Tel.: +91-22-49186270			
Tel.: +91-22-61371637				

For The Indian Hotels Company Limited

BEEJAL DESAI

NOTICE OF THE 43¹⁰ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

(CIN: L70109DL1980PLC169318)

Regd Office: I" Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002

Mobile No.: 7303495374, Email: camaccommercial@gmail.com

Website: www.camaccommercial.com

Notice is hereby given that:

The 43rd Annual General Meeting ("AGM") of the Camac Commercial Company Limited ("Company") will be convened on Wednesday, July 12, 2023 at 11:00 AM IST through Video Conferencing ("VC") facility to transact the ordinary and special businesses, as set out in the notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "ACT") and rules framed thereunder read with General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 in continuation of general circulars No. 02/2022 dated May 5, 2022 (collectively referred as "Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs("MCA Circulars") and Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") In terms of MCA Circulars and SEBI Circulars the requirements of sending physical copy of the

Company is sending notice of its 43" AGM and Annual Reports 2022-23 to the members at their registered email id address, the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.camaccommercial.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com and those Members holding shares in physical or demat form, whose email addresses are not registered with the Company, are required to register their email addresses with Niche Technologies Private Limited (Registrar and Transfer Agent) by sending a request letter specifying Name, Folio Number, Number of Shares, Certificate Number etc. & account details at email ID nichetechpl@nichetechpl.com on or before July 05, 2023. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off

notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed therefore the

date of July 05, 2023 may cast their vote electronically on the ordinary and special businesses, as set out in the Notice of the 43" AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). All the members are informed that: The ordinary and special businesses, as set out in the Notice of the 43" AGM, will be

transacted through voting by electronic means; Date and time of commencement of remote e-voting: July 08, 2023 (9:00 AM);

(iii) Date and time of end of remote e-voting: July 11, 2023 (5.00 PM); (iv) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through

e-voting system during the 43" AGM is July 05, 2023; The detailed instructions on remote e-voting and joining AGM are given in the notice of AGM. (vi) Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 43st

AGM by email and holding shares as on the cut-off date is July 05, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com or camaccommercial@gmail.com. (vii) Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM

through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting

system during AGM; c) the members participating in the AGM and who had not cast their

vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM. (viii) Those members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self-attested scanned copy of the PAN card; and self-attested scanned copy of any document (such as Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Members registered with the Company, be email to

camaccommercial@gmail.com. Members holding shares in demat form can update

their email address with their Depository Participant. In case of any queries regarding remote e-voting from the e-Voting system, you may refer the frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Designation: Senior Manager, Central Depository Services (India) Limited, Address : A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 or toll free no. 1800 22

The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from July 26, 2023 to July 12, 2023 (both days inclusive).

For Camac Commercial Company Limited

Shakshi Mishra Company Secretary 'IMPORTANT'

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such

associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

K.C.P.SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED Registered Office: 'Ramakrishna Buildings' SUGAR
 AND
 AND No.239, Anna Salai, Chennai - 600006 CIN: L15421TN1995PLC033198 Tel: 044 - 28555171 - 176 | Fax: 044 - 28546617 **DIND COR**

Notice is hereby given in pursuance of Section 124 (6) of the Companies

mail: secretarial@kcpsugar.com | Website: www.kcpsugar.com

Act, 2013 read with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016. Please take notice that the Equity Shares, in respect of which dividend has not been encashed or claimed for seven consecutive years are due to be transferred to Investor Education and Protection Fund Authority ("Authority"). The Details of such Equity Shares and respective

Shareholders are placed in the Website of the Company at


www.kcpsugar.com Notices have also been sent individually to the

concerned shareholders to their latest available address. Respective Shareholders are hereby requested to make a claim for Unclaimed Dividend for all or any of the Financial Years, 2015 - 2016 to 2021 - 2022 with our Share Transfer Agent, M/s.Integrated Registry Management Services Private Limited at 2nd Floor, 'Kences Towers' No.1, Ramakrishna Street, T.Nagar, Chennai - 600017; Tel: 044 28140801 to 803; e-mail: corpserv@integratedindia.in on or before 10/10/2023 with requisite particulars, failing which the above said

shall lie against the Company thereafter If shares are transferred to the Authority in the manner aforesaid on due date, thereafter you may make a claim for the said Shares and / or Unclaimed Dividend in respect of the said Shares to the Authority by submitting an online application in Form IEPF-5, in the manner

shares will be transferred to the Authority at appropriate date. No claim

prescribed under the above mentioned Rules. For K.C.P.Sugar and Industries Corporation Limited Place : Chennai Date: 16/06/2023 Company Secretary



Executive Vice President Corporate Affairs and Company Secretary (Group)

New Delhi

Place : Mumbai

Date : June 15, 2023

बाइक सवार दंपती को ट्रक ने कुचला

गाजियाबाद। मेरठ रोड पर बुधवार की रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को कुचल दिया। शरीर के ऊपर से ट्रक का पहिया गुजर जाने के चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपित चालक को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया।

एसीपी नंदग्राम रिव कुमार सिंह ने बताया कि सेवा नगर में रहने वाले नवाब सिंह अपनी पत्नी पूनम के साथ बाजार से लौट रहे थे। देर रात 11 बजे सेवा नगर कट पर पटेल नगर की ओर से बाइक मोडने के दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने इन्हें कुचल दिया।

आरोपित चालक हिरासत में दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पलिस ने टक को कब्जे में लेकर आरोपित चालक को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस के घटनास्थल पर? पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं थी। हादसे का यह भी एक कारण हो सकता है।

पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड न ः एल65929डीएल1947पीएलसी001240; वेबसाइट ः www.pnbfinanceandind पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–1100 फोन : +91 7303495375 ; ई मेल : pnbfinanceindustries@gmail.com

128वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, रिमोट ई वोटिंग की जानकारी तथा बही बंदी

तदद्वारा सूचना दी जाती है कि

कम्पनी की 128वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बुधवार 12 जुलाई, 2023 को पूर्वा, 10.30 बर आईएसटी, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लामू प्रावधानों एवं तदधीन विरक्षित नियमों तथा सेबी (सूबीय दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनर द्वायत्व आर प्रकटाकरण अपसार्भ ।वानयमावला, 2015 क साथ पाठत कापार द मजावय द्वारा जास जनस्र सर्कुलर नंबर 02/2022, दिनांकित 05 नई, 2022 के क्रम में जारी जनस्र सर्कुलर नंबर 10/2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 (एमसीए सर्कुलरी) तथा भारतीय प्रतिमृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जार्थ सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी 2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी 2023 (सेबी सर्कुलर) के अनुमावन में, किसी उमय स्थान पर सदस्यों की उपस्थित के बिना, वीडिय कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") सुविधा के माध्यम से, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण एवं विशेष व्यवसार के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

एमसीए रार्कुलर्प तथा रोबी सर्कुलर के निबन्धनों में, सदस्यों को एजीएम की सूबना तथा वार्षिक रिपो की मौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता रामापा कर दी गई हैं, अतएव कम्पनी इराकी 128वीं एजीएम व रायना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पते पर भेज रही है प्रपरीक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.pnbfinanceandindustries.com पर तथा एनएसडीएल वेबसाइट <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध होंगे तथा भीतिक अथवा अभीतिक रूप में शेयर के घारक उन रादरयों, जिनका ई मेल पता कम्पनी के पारा पंजीबद्ध नहीं है, को अपना ई मेल पत रकाईलाइन फाइनेंशियल पार्विर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (स्किस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंन्ट) के पास पाजीक करवाने के लिए, एक अनुरोध पत्र, अपने नाम, फोलियो नंबर, शेयरों की संख्या, सर्टिफिकेट नंबर इत्यारि तथा इलेबर्ट्सिक क्लीयरिंग रार्विस के माध्यम से लागांश के मुगतान हेतु खाता विवरण का उल्लेख करते हुए, ई मेल आईडी <u>parveen@skylinerta.com</u> पर 05 जुलाई, 2023 को या उरारो पहले मेजना होगा। सदरय जो विब्छेदन तिथि (कट ऑफ डेट) 05 जुलाई, 2023 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयन के धारक हैं, 128वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष व्यवसायों के संबंध में अप रु बारफ है, 125वा र जाएन का सूचना न उरलावता सावारण राज्या वारण नवरा चरता चरता वारण वारण चरता वारण वारण वारण वा बांच इतेन्द्रशिक विधि से नैशानत सिक्योरिटीज डिपॉजिजरी लिमिटेड ("एंगएसडीएल) के इतेन्द्रशीच बोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-बोटिंग") के जरिये डाल सकते हैं। रिमोट ई-बोटिंग तथा एजीएम से जुड़नें के विषय में विरतृत अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

सभी सदस्यों को सुवना दी जाती है कि) 128वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक सा द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा

(ii) रिमोट ई वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं रामय : 08 जुलाई, 2023 को (पूर्वा. 09.00 बजे)

(iii) रिमोट ई वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : 11 जुलाई, 2023 को (अप. 05.00 बजे) (iv) रिमोट ई वोटिंग द्वारा अथवा 128वीं एजीएम के दौरान ई वोटिंग शिरटम द्वारा वोट डालने के अधि

निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि (कट ऑफ डेट) 05 जुलाई, 2023 है ;

 (v) कोई व्यक्ति जो ई मेल द्वारा 128वीं एजीएम की सूबना मेजी जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता
 और विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 05 जुलाई, 2023 को शेयर घारक है, <u>evoting@nsdl.co.in</u> अथन pnbfinanceindustries@gmail.com पर अनुरोध मेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकत

(vi) रादस्यगण नोट करें कि क) एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉडयल उपरोक्त तिथि और राम के बाद बोटिंग के लिए निक्किय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ; ख) सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल बुके हैं, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते ारात दुन्यारिय आराजभाग पाठ आराजुंक है. यारा जुपमा मान्यना र भूवारिय ना या राज्य है, परंतु जनको एजीएम के दौरान ई-नोटिंग शिस्टम द्वारा दोबारा बोट डालने की अपुनति नहीं होगी ; ग) एजीएम में भाग ले रहे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई बोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएर के दौरान ई-वीटिंग सिस्टम द्वारा वीट डालने का हकदार होंगे ; घ) कोई व्यक्ति, जिसका ना विच्छेदन तिथि (कट ऑफ डेट) को सदस्य पंजिका में दर्ज है, वह रिगोट ई वीटिंग की सुविधा क लाभ प्राप्त करने, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिं ii) जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं, जिनका ई मेल पता कम्पनी में पंजीकत नहीं है, वे नार

भारियों ने वर तथा पूरा पता के उल्लेख युवत हस्ताक्षारित अनुरोध एक की स्कैन प्रति, पैन कार्ड क रव-सत्यापित रकैन प्रति तथा कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पत्ते के समर्थन में किसी दस्तावेर (जैसेकि आघार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, निर्वाचन पहचान कार्ड, पासपोर्ट) की स्व सत्यापित स्कैन प्रति प्रभाग कवाना कि हु श्रद्धान प्रशासका है। ते निर्माण नवता का कि निर्माण कि स्वाप्त प्रशासका कि से कि स्वाप्त प ई मेल द्वारा pnblinanceindustries@ennail.com को मंजकर अपना ई मेल पता प्रयोक्त करवा सक्त हैं। जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं, वे अपना ई−मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट .. गर्ग आद्यतन करवा सकते हैं।

viii) किसी संदेह की रिथति में, आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के "डाउनलोड सेक्शन" के अन्तर्गत उपलब् शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेटली आरस्ड क्वेशचन्स (एफ्एक्यू'ज) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का रांदर्भ ग्रहण कर राकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेज राकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिगिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए तिम, ततुष्ठी तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, रोनापति बागट मार्ग, लोअर परेल, मृबई-सक्कार्याउण्ड, रोनापति बागट मार्ग, लोअर परेल, मृबई-सक्कार्याउण्ड, रोनापति बागट मार्ग, लोअर परेल, मृबई-सक्कार्याउण्ड, रोनापति बाग्र मार्ग, लोअर परेल, म्हिन्स स्वाप्त स पर सम्पर्क कर सकते हैं. जो दलेक्टॉनिक साधनों दारा वोटिंग के साथ संबंधित शिकायतों का निवा

कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां 06 जुलाई, 2023 से 12 जुलाई, 2023 त वास्ते पीएनबी फाइनैंस ऐण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटे

🍇 जून, 2023

कैमैंक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिट्रेड

(सीआईएन : एल७०१०९डीएल१९८०पीएलसी१६९३1८) पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 मोबाइल नंबर : 7303495374, ई-मेल : camaccommercial@gmail.com

> वेबसाइट : ww 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी

कैमेक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड ("कम्पनी") की 43वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बुधवार, 1 जुलाई, 2023 को पूर्वा. 11.00 बजे आईएसटी, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लाग प्रावधान एवं तदघीन विरचित नियमों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 02/2023 दिनांकित 05 मर्ड. 2022 के क्रम में जारी जनरल सर्कलर नंबर 10 / 2022, दिनांकित 28 दिसम्बर. 202 (भामृहिक रूप से 'सर्कुलर्स' कहे गए हैं) ('एमसीए सर्कुलर्स') तथा मारतीय प्रतिमृति एवं विनिध्य बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एकओ/सीएकऔ/पीओऔ-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 ('सेबी सर्कुलर') के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ('वीसी') सुविधा के माध्यम एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी

एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के निबन्धनों में, सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, अतएव कम्पनी इसकी 43वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 सदस्यों को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पते पर गेज रही है उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट <u>www.camaccommercial.com</u> पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evofingindia.com पर भी उपलब्ध होंगें राष्ट्रा भीतिक अथवा अभीतिक रूप में शेयरों के धारक उ सदस्यों, जिनका ई-मेल पता कप्पनी के पास पंजीबद्ध नहीं है, को अपना ई-मेल पता निच टेक्नोलॉजी प्राइबेट लिमिटेड (रिजिस्ट्रार एवं ट्रांसाफर एजेन्ट) के पास एक अनुरोध पत्र, नाग, फोलियो नंबर, शेयरों की संख्या, सर्टिफिकेट नंबर इत्यादि तथा खाता विवरण का उल्लेख करते हुए ई-मेल आईडी nichetechp@nichetechpt.com पर 05 जुलाई, 2023 को या उससे पहले भेजना होगा।

वे सदस्य जो विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 05 जुलाई, 2023 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरो के धारक हैं, 43वीं एजीएन की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष व्यवसायों के संबंध में अपन वोट सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टर ('रिमोट ई-वोटिंग') के जरिये इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सगी सदस्यों को सूचना दी जाती

43वीं एजीएम की सूचना में उल्लेखित साधारण तथा विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक सा द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा ;

रिमोट ई-वोटिंग आरंग होने की तिथि एवं समय : 08 जुलाई, 2023 को (पूर्वा. 09.00 बजे) (iii) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : 11 जुलाई, 2023 को (अप. 05.00 बजे) .

(iv) रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अथवा 43वीं एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने के अधिका

निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 05 जुलाई, 2023 है रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम से जुड़ने हेतु विस्तृत अनुदेश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

(vi) कोई व्यक्ति जो ई-मेल द्वारा 43वीं एजीएम की सूचना भेजी जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता और विच्छेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) 05 जुलाई, 2023 को शेयर धारक है<u>.www.evotingindia.com</u> अथव <u>camaccommercia@gmail.com</u> पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है सदस्यगण नोट करें कि क) उपरोक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट ्व हिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ; ख) सदस्म, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट डाल चुके हैं, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, परंत उनको एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी ू गो एजीएम में भाग ले रहे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-चोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएं के दौरान ई-चोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने का हकदार होंगे ; घ) कोई व्यक्ति, जिसका नाग विकंदन विधि (कट-ऑफ डेट) को सरस्य पिका में दर्ज है, वह स्मिट ई-वोटिंग की सुविधा क लाभ ग्राप्त करने, वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

iii) जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं. जिनका ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकत नहीं है. वे नार फोलियो नंबर तथा पूरा पता के उल्लेख युक्त हस्ताक्षारित अनुरोध पत्र की स्कैन प्रति, पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्कैन प्रति तथा कम्पनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के समर्थन में किसी दस्तावेज (जैसेकि आघार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, निर्वाचन पड़चान कार्ड, पासपोटी) की स्व−सत्यापित स्कैन प्रति ई−मेल द्वारा <u>camaccommercial@gmail.com</u> को भेजकर अपना ई−मेल पता पंजीकृत करवा सकते हैं जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं, वे अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पार

4) ई—वोटिंग सिस्टम से रिमोट ई—वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग मैनुअल तथा www.evonngindia.com क हेट्स संवशन क अंतरात पंपलब्ध शंगरधारको क लिए हुं-वाटिंग मेनुअल तथा नहुंघा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एकप्रमंग्") का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा helpdesk.evolin@cdslindia.com को ई-मेल लिख सकते हैं अथवा श्री राकेश दाल्वी. पदनाम: विरुख प्रबंधक, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिभिटेड, पता: ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतताल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई- 400013 से सम्पर्क करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें अथवा 022-23058542/43 पर अथवा टोट

फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें। (5) कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां 06 जुलाई, 2023 से 12 जुलाई, 2023 तव (दोनों तिथियों सहित) बंद रहेंगी।

कैमैक कॉमर्शियल कम्पनी लिमिटेड

तिथि : 16 जून, 2023 साक्षी मिश्रा स्थान : दिल्ली कम्पनी सचिव

नोएडा में यातयात व्यवस्था को दुरस्त करने के लिए 10 जगह लगें हाईटेक कैमरेः पुलिस

• डीसीपी टैफिक ने पाधिकरण को लिखा पत्र

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

गौतमबुद्ध नगर में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पलिस लगातार काम कर रही है। इस दौरान गौतमबुद्ध नगर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती भी बरती जा रही है।

अब यातायात पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण से 10 नए स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। इस संबंध में डीसीपी ट्रैफिक अनिल कुमार यादव की तरफ से प्राधिकरण को एक पत्र भी भेजा गया

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

एमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशीप ग्रेटर नोएडा

लिमिटेड (आईआईटीजीएनएल) की मल्टीमॉडल

लॉजिस्टिक हब (एमएमएलएच) परियोजना को मूर्त रूप

कोरिडोर के न्यू दादरी स्टेशन से एमएमएलएच तक करीब

3 किलोमीटर लाइन की डीपीआर को डीएफसीसीआईएल

एतदद्वारा उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

Aicici Bank | कोलकाता - 700020

मोहल्ल नवरतन बाजार, सासाराम, रोहतास,

कर्ज़दार/ सह–कर्ज़दार का

नाम/ ऋण खाता क्र.

अनिल गुप्ता/ प्रतिमा गुप्ता/

LBDEĽ00004259648

LBGHZ00005177041

LBDEL00002432900

खुशबू महता/ स्थान हारा । LBFDB00005148504

रेखा गुप्ता/ वंदनेश प्रताप सिंह/

प्रतिभूति हिंत (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

LBGHZ00003155354

दिनांक : जून 16, 2023 स्थान : दिल्ली/ एनसीआर

Submission of EOI

executed with ICICI Bank)

5. Submission of Bid Form

and "Without recourse basis"

Agreement (NDA) with the Bank

Kumar (+91 98208 03292).

Date : June 16, 2023 Place : Delhi/NCR

6. Process of e-bidding

4. Access to data room for due diligence

बिहार, सासाराम-821115 /

स्थान : दिल्ली

श्वेता सक्सेन

निदेशक एवं कम्पनी सेक्रेट्र

इस परियोजना के अंतर्गत वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेंट

देने की दिशा में एक और कदम आगे बढाया गया है।



यादव ने बताया कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसटीएमएस) के तहत कैमरे लगाने के लिए प्राधिकरण को एक पत्र भेज गया है। कैमरे लगने से यातायात के साथ ही कानून व्यवस्था भी काफी बेहतर हो जाएगी। जिन

रेल कनेक्टिवटी के लिए डीपीआर को दी मंजूरी

सीआईएन : एल65190जीजे1994पीएलसी021012 www.icibank.com

1. नीतीश राज / गिरिजा देवी / वार्ड नंबर 26, खाता नंबर 30, प्लॉट नंबर 346, मौजा — मिर्जा पुर, थाना

निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भूगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक

आरितयों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आरितयों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 की घारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, हालांकि यह सुपुर्द नहीं की जा सकी और इसलिए

सूबना की वैकल्पिक तामील के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को बकाया

राशि का भुगतान इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा वित्तीय आस्तियों क

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्ज़दारों को माँग सूचनाएँ निर्गमित की थीं, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिमुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में

दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है। एतद् द्वारा विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण की संपत्ति के संव्यवहार

नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेत्

संपत्ति का विवरण / सांकेतिक

कब्जे की तिथि

प्लॉट नंबर डी-535, पहली मंजिल, ब्लॉक- डी

|इद्रप्रस्थ कालाना, गाजियाबाद।/ जून 13, 2023

फ्लैट नंबर- 803, 8वीं मंज़िल, टावर- 4, प्लॉट

नंबर – जीएच – 6ए, सेक्टर – 5, ड्रीम होम्स, ग्रीनवुड एन्क्लेव, वेव सिटी एनएच – 24 गाजियाबाद

यूनिट नंबर– पीटी/बी 321, तीसरी मंज़िल, ब्लॉक-बी, पार्क टाउन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एनएच–24,

फ्लैट नंबर एमजे/सी-1204, फ्लोर 12, महक जीवन, टावर सी, विलेज मोर्टा, एनएच-58, राज

गाजियाबाद, ऊपर- 201003./ जून 13, 2023

फ्लैट नंबर 1104, 11वीं मंज़िल, टावर ८, ड्रीम

Regd. Office: ICICI Bank Limited, ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, Gujarat. Pin- 390 007
Corporate/Branch Office: ICICI Bank Towers, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051

PUBLIC NOTICE - AUCTION OF FINANCIAL ASSET

In terms of the policy of ICICI Bank Limited ("the Bank") on Sale of Financial Assets and in line with the regulator

guidelines, the Bank hereby invites Expression of Interest (EOI) from interested Asset Reconstruction Companies

(ARCs) for purchase of a portfolio of Non-Performing Assets ("Financial Asset") on the terms and conditions

ndicated herein under "Swiss Challenge Method". It is hereby clarified that confirmation of the name of successful

Term of sale

100% in Cash

Schedule for E-Auction

The sale of aforesaid Financial Asset is on "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis'

Interested buyers are requested to submit EOI via email to jignesh.shelani@icicibank.com o

vijayc.kumar@icicibank.com and/or by post at ICICI Bank Limited, ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051 before June 08, 2023 at 5.00 PM. The Bank will not be liable for non-

receipt of EOI for any reason. Interested buyers are expected to take efforts to find out the status of

The e-auction would be conducted under "Swiss Challenge Method" as per schedule above on the terms &

conditions of the Offer Document, which will be shared with interested buyers on execution of Non-Disclosure

For any further clarifications with regard to access to data room, due-diligence, terms & conditions of the auction and/or submission of EOI/BID, kindly contact Mr. Jignesh Shelani (+91 75748 21846) or Mr. Vijay

communication sent by them to the Bank to ensure their participation in the auction process.

bidder will be subject to final approval by the competent authority of the Bank

Activity

2. Execution of Non-Disclosure Agreement ("NDA") (if not already

3. Release of Offer Document along with Preliminary Information

होम्स, सेक्टर-5 ग्रीनवुड एन्क्लेब वेब सिटी एनएच-24, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश/ जून 13, 2023

उपरोक्त दर्शाए गए कर्ज़दार/सह-कर्ज़दार एवं ज़मानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9

201001/ जून 13, 2023

गियाबाद/ जून 13, 2023

प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

सासाराम, थाना नंबर 139, हलका नंबर 06, सर्दर रजिस्ट्री

ऑफिस सासाराम, जिला रोहतास, बिहार (परिमाप क्षेत्रफल 1.5

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत

है। डीसीपी ट्रैफिक अनिल कुमार स्थानों पर कैमरे लगाने की मांग की गयी है। वहां पर आवश्यकता के कारणों की भी जानकारी प्राधिकरण को दी गयी है। संबंधित स्थानों पर काफी ज्यादा बढ गया है। जिसके चलते इन स्थानों पर निगरानी करने

ग्रेटर नोएडा की लॉजिस्टिक हब

परियोजना को लगे पंख

ने मंजुरी दे दी है। करीब 858 करोड़ रुपये की इस

परियोजना को बनाने के लिए डीएफसीसीआईएल जल्द

टेंडर जारी करने जा रहा है। उद्योगों की माल ढुलाई की

राह आसान बनाने के लिए दादरी में मल्टीमॉडल

प्रषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि

तक बकाया राशि

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड्

डिमांड नोटिस की तिथि / शाखा का

एनसीआ

दिल्ली/

एनसीआ

दिल्ली/

एनसीआर

दिल्ली/

एनसीआ

डिमांड नोटिस में राशि (रु.)

अगस्त 20, 2020

₹. 23.05.641/-

जुलाई 29, 2022

रु. 19,08,130/-

फरवरी 25, 2023

₹. 4,54,935/-

₹. 25,00,627/-

जून 18, 2019

रु. 13,02,971/-

Rs. 2.5 million

Date &Time

June 17, 2023, latest by 5.00 PM

June 21, 2023, latest by 5.00 PM

June 21, 2023

June 21, 2023 to July 07, 2023

July 11, 2023 from 3:00 PM to 4:00 PM

with auto extension of 5 minutes till sale is completed

तिथि

05-02

लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है।

इन स्थानों पर की मांग

<table-cell-rows> डीएनडी टोल प्लाजा पर सर्विलांस और एएनपीआर कैमरे ◆डीएनडी टोल पर चढ़ने वाले लुप पर सर्विलांस कैमरे

┿िफल्म सिटी के गेट पर सर्विलांस और पीटीजेड कैमरे

♦ एलिवेटेड रोड सर्विलांस और स्पीड कैमरे

🛨सेक्टर-37 पुलिस चौकी के पास पीटीजेड और पीए सिस्टम छिजारसी एसजेएम

अस्पताल के पास सर्विलांस,

🛨 बहलोलपुर पुलिस चौकी के सामने सर्विलांस

पीटीजेड कैमरे

🛨 बहलोलपुर पुल सर्विलांस और स्पीड कैमरे

ग्रेनो प्राधिकरण ने ६० किसानों पर दर्ज कराई एफआईआर

नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के बाहर करीब दो महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। यह एफआईआर सूरजपुर कोतवाली में दर्ज करायी गयी है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 60 अज्ञात किसानों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज करायी गयी है। एफआईआर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचनाने और आम आदमी को परेशानी में डालने समेत कई संगीन आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इससे पहले दी गयी शिकायत के आधार पर 100 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वर्क सर्किल-4 के सहायक प्रबंधन हरिंदर सिंह ने टीकम नागर, नरेंद्र भाटी निवासी सिरसा, हरेंद्र खारी निवासी खैरपुर गुर्जर, जोगेंद्र निवासी ग्राम सिरसा, जगबीर नंबरदार निवासी सादोपुर, जनार्दन भाटी और कुलदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

संक्षिप्त समाचार



'वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे' के अवसर डॉ. गुरुप्रीत सिंह रम्मी। वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ बांटी खुशियां

गाजियाबाद। सामाजिक कार्यों में अग्रणी खालसा हेल्प फाउंडेशन की टीम 'वर्ल्ड एल्डर एब्यज अवेयरनेस डे' के अवसर पर बहस्पतिवार को गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित आंगन और आंचल वृद्ध आश्रम में केक काटकर खुशियां बांटी। कोविड कॉल में ऑक्सीजन लंगर चलाने वाले ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध व खालसा हेल्प के प्रमुख डॉ. गुरुप्रीत सिंह रम्मी के नेतृत्व में टीम ने बुजुर्गों की सेवा और सहायता के संकल्प को दोहराते हुए इस अवसर पर दवाइयां वितरित करने के साथ सेवा का भरोसा दिया। इस अवसर पर आश्रम में बडी संख्या में वृद्ध महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। खालसा हेल्प काफी समय से इस वृद्ध आश्रम में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस अवसर पर सरबजीत सिंह घई जी, सुरिंदर सिंह जी और दलजीत सिंह जी मौजूद रहे।

वकील की ड्रेस पहन कलेक्ट्रेट में घुसे दो चोर

नोएडा। ग्रेटर नोएडा में अधिवक्ता की डेस पहनकर कलेक्ट्रेट में घुसे दो चोरों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दोनों कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के कार्यालय के पास से बाइक चुरा रहे थे। उसी समय कुछ वकीलों की नजर उन लोगों पर पड़ गयी। शक होने पर लोगों ने पूछताछ किया तो जानकारी मिली कि अधिवक्ता की डेस पहनकर चोर बाइक चोरी करने कलेक्टेट परिसर में घसे थे। सरजपर कोतवाली पलिस ने दोनों से पुछताछ शुरू कर दी है।

टावर लगाने को लेकर दो पक्षों में हुए पथराव

गाजियाबाद। लोनी बार्डर क्षेत्र के जवाहर नगर कालोनी में टावर लगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बुधवार रात दोनों पक्षों ने पथराव कर दिया। जिसमें दोनों पक्षों समेत मौके पहुंचे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 21 नामजद और 30- 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।सात लोगों को हिरासत में लेकर चालान किया जा रहा है। घटना के बाद से कालोनी में सन्नाटा पसरा है। सी ब्लाक जवाहर नगर निवासी नीरज शर्मा और डी ब्लाक के मनजीत के टावर लगने को लेकर विवाद चल रहा है। बुधवार रात को दोनों में कहा सुनी हो गई।

नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम में मिली 16 शिकायतें

नोएडा। नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राधिकरण के अधिकारियों ने शाहपुर गोवर्धन पुर गांव का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष 16 मुख्य समस्याओं को रखा नोएडा प्राधिकरण के उप महाप्रबंधक (जल एवं सीवर) आरपी सिंह ने बताया कि इस दौरान ग्रामीणों ने सिविल की 5, जल और सीवर की 3, विद्युत यांत्रिकी की 3, उद्यान की 2, भूलेख की 1, यूपीपीसीएल की 1 और जिला प्रशासन की से संबंधित 1 शिकायत की। इस दौरान अनुरक्षण के कार्य 5 दिनों में पूरा कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को जारी किए गए। नयी मांगों को लेकर भी विभागीय अधिकारियों को पत्रावली प्रस्तुत कर 10 दिनों में स्वीकृत कारने के निर्देश जारी किए गए।

पंजी, कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क, रेस कोर्स सर्किल, वडोदरा-39000 कापॉरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा—कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई),

शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., प्लॉट नंबर 7, कम्युनिटी सेंटर एस.डी. टावर, सेक्टर–8, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और व्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13 (2) के अधीन निम्नवर्णित तिथि को एक सचना उनके द्वारा बैंक को उपलब्ध कराए गए, उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, तथा कि उसके अतिरिक्त, यहां नीचे वर्णित उक्त कर्जदारों की सचना के प्रयोजनार्थ उक्त कर्जदारों को इस सार्वजनिक सचना द्वारा सचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रवर्तित की जाने वाली प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की	एनपीए तिथि
	48 U 97 989 E		तिथि तक बकाया राशि	514126
1.	LVGUR00041020501/धर्मेन्द्र यादव/जमालपुर (28) गुरूग्राम जमालपुर हरियाणा/गुरूग्राम—122503	एलपीके 2518 एफबीटी / एलपीके 2518 एफबीटी / एवआर55एएच4804	02-Nov-22 Rs. 19,87,586/-	02-May 2022
2.	LVGUR00041020515/धर्मेन्द्र यादव/जमालपुर (28) गुरुग्राम जमालपुर हरियाणा/गुरुग्राम—122503	एलपीके 2518 एफबीटी / एलपीके 2518 एफबीटी / एचआर55एएच5004	2-Nov-22 Rs. 18,82,037/-	02-May 2022
3.	UVGUR00041993448/धर्मेन्द्रयादव/श्रीकृष्ण जेतीबी/ दुकान 46, निकट कृष्ण पेट्रोल पम्प/मेन मार्किट/ जमालपुर /गुरूग्राम-122503	टाटा एलपीके 2518 सीआरई बीएस-4 एवडी /टाटा एलपीके 2518 सीआरई बीएस-4 एवडी /एवआर55एएव5004ए	15-Apr-23 Rs. 10,47,274/-	02-May 2022
4.	LANOD00038343818/अभिजीत सिंह/भारत फूड्स ऐंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड/बी–54, सेक्टर–67, नोएडा एफएफ जी बी नगर/नोएडा–201301	जीएलएस / 350 डी / यूपी16सीबी0011	15-Apr-23 Rs. 27,62,826/-	30-Jar 2023
5.	LANOD00038630532 / सुजीत कुमार सिंह / भारत फूड्स एँड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड / बी-54, सेक्टर-67, नीएडा एफएफ जी बी नगर / नोएडा-201301	अल्टूरास जी4/4गुणा4/ यूपी13बीएच0011	15-Apr-23 Rs. 11,61,534/-	30-Jar 2023
6.	LUDEL00043282224/सतीश कुमार/318 323 बतुर्थ तल, कजूर रोड जोशी/रोड वीटीसी करोलबाग/दिल्ली—110005	क्रेटा / 1.4 बेस / डीएल12सीक्यू4500	15-Apr-23 Rs.3,99,603/-	04-Jul 2022
7.	LADEL00041286603 / सुनील टोक्स / मकान नंबर 214, मुनीरका गांव जेएनयू एसओ / दिल्ली—110067	आई 20/मैग्ना पेट्रोल/ डीएल4सीएजैड4195	15-Apr-23 Rs.3,47,698.8/-	03-Oc 2022
8.	SPDEL00044899646/सुनील टोकस/मकान नंबर 214, मुनीरका गांव जेएनयू एसओ/दिल्ली-110067	आई 20/मैग्ना पेट्रोल/ डीएल4सीएजैड4195	15-Apr-23 Rs.2,18,675/-	03-Oc 2022
9.	LADEL00044683365/सतीश कुमार/5601 गली नंबर 1, संत नगर/करोल बाग/नई दिल्ली–110005	न्यू वेनां / 1.5 एस प्लस / डीएल3सीसीयू8580	15-Apr-23 Rs. 6,75,301/-	04-Jul 2022
10.	LVDEL00042961305/अनीता/सत पाल सिंह/84 निजामपुर रोड/नया पाना लाडपुर/नॉर्थ वेस्ट दिल्ली/दिल्ली-110081	टाटा 1412 बीएस 4/ टाटा 1412 बीएस 4/डीएल1जीसी9161	15-Apr-23 Rs. 2,26,2518/-	13-Jar 2022
11.	LVDEL00039935729/सकीना खातून/मोहम्मद अफरोज/ झुग्गी नंबर 1/16, राजस्थान उद्योग नगर/सराय पीपल थला जहांगीर पुरी एन.एस/मंडी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली/दिल्ली–110033	एएल ईकोमेट 1214/एएल ईकोमेट 1214/ एवआर38एए7363	15-Apr-23 Rs. 20,18,741/-	02-Jul 2021
12.	LVDEL00041950850/सकीना खातून/मोहम्मद अफरोज/ श्रुग्गी नंबर 1/16, राजस्थान उद्योग नगर/सराय पीपल थला जहांगीर पुरी एन.एस/मंडी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली/दिल्ली–110033	एएल ईकोमेट 1214/एएल ईकोमेट 1214/ एवआर38एए7363	15-Apr-23 Rs. 4,00,369/-	02-Jul 2021
	LVDEL00036894935 /वीरेन्द कुमार शर्मा / विकास ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया / 30 प्रथम तल / ट्रांसपोर्ट सेंटर / पंजाबी बाग / दिल्ली—110026	पीआरओ 5016/ पीआरओ 5016/ एनएल01एबी2023	15-Apr-23 Rs. 9,04,604.6/-	30-Jur 2020
	LVDEL00036894980 / वीरेन्द्र कुमार शर्मा / विकास ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया / 30 प्रथम तल / ट्रांसपोर्ट सेंटर / पंजाबी बाग / दिल्ली—110026	पीआरओ 5016 / पीआरओ 5016 / एनएल01एबी2024	15-Apr-23 Rs. 6,67,134.6/-	30-Jur 2020
15.	LVDEL00036895203 /वीरेन्द्र कुमार शर्मा / विकास ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया / 30 प्रथम तल / ट्रांसपोर्ट सेंटर / पंजाबी बाग / दिल्ली—110026	पीआरओ 5016/ पीआरओ 5016/बॉडी	15-Apr-23 Rs. 3,80,936.2/-	30Jun 2020
	LVDEL00036895288/वीरेन्द्र कुमार शर्मा/विकास ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया/30 प्रथम तल/ट्रांसपोर्ट सेटर/पंजाबी बाग/दिल्ली–110026	पीआरओ 5016/ पीआरओ 5016/बॉडी	15-Apr-23 Rs. 4,10,126.2/-	30-Jur 2020
17.	LAGUR00041851012/कृष्ण लाल/एबीएम इंजीनियर्स/ प्लॉट नंबर 70/आईएमटी मानेसर/सेक्टर-6/गुरूग्रम-122002	नेक्सन/एक्सजैड प्लस/ एचआर26ईजे3139	15-Apr-23 Rs.7,38,110/-	11-Jul 2022
18.	LANOD00042007930 / श्वेतांक मिश्रा / गली नंबर 2 / 11, मामूरा, सेक्टर-66 / गौतमबुद्ध नगर / नोएडा-201301	क्विड/1.0 आरएक्सटी/ यूपी16सीक्यू4053	15-Apr-23 Rs.4,16,510/-	30-Oc 2021
19.	LAFDB00042539983 / सतीश कुमार / एच नंबर 509, सेक्टर-23, संजय कालोनी / फरीदाबाद / गुरूग्राम-122001	वेन्यू / एसएक्स (ओ) / एचआर51सीसी5341	15-Apr-23 Rs.6,84,748/-	09-Dec 2022

उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को बकाया राशि का मुगतान 13(2) के तहत सूचना जारी करने की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, जिसमें असफल रहने पर 13(2) के तहत सूचना जारी करने की तिथि से 60 दिन के बाद वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे।

टिएगो / एक्सजैड पेटोल /

यूपी14ईएच7782

16-May

2022

15-Apr-23

4,89,181.4/-

वास्ते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

तिथि : 16 जून, 2023 स्थान : दिल्ली / एनसीआर

20. LAGHZ00041307938 / सचिन श्रीवास्तव / बिल्डिंग नंबर 110.

प्रथम तल फ्लैट नंबर एफ 1/वैशाली सेक्टर-2ए,

पीएनबी / गाजियाबाद-201010

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा 100के, मिलाप भवन, 8/ऐ, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। कार्यकारी संपादक: नवीन उपाध्याय, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879900।